



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 320]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 1979/ आश्विन 18, 1901

No 320]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 1979/ASVINA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य निगम)

अधिसूचना

दिल्ली नई, 10 अक्टूबर, 1979

सांकांति० 577(प्र)/आ०ख० ईख.—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण), आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न नथ्यों का ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सांकांति० 484(प्र)/आ०ख०/ईख तारीख पहली अक्टूबर, 1978 का अधिश्रमण करते हुए ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों में परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना बहु आवश्यक समझनी है, ईख की आधार्मिक न्यूनतम कीमत 12.50 रुपये प्रति क्विंटल के आश्रय पर, जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम बमूली से सम्बद्ध है, और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत में अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत बमूली की वृद्धि पर 14.7059 पैसा प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इसमें उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त प्रभावी रूप में नियत करनी है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट नियति प्राप्त प्रक्रिया वाले चीनी के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकर्ता द्वारा कारखाना द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त ईख के लिये चीनी वर्ष 1979-80 के लिये 30 सितम्बर, 1980 तक सदेय होगा। किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिये सदेय रिबेट के अधीन होगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	ईख की रूपयों में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
(1)	(2)	(3)

हरियाणा

1. दि सरम्बती शृगर मिलम पो०आ० यमुतानगर, जिला अम्बाला।
2. दि हरियाणा कोआपरेटिव शृगर मिलम लि०, पो०आ० रोहतक, जिला रोहतक।

12.65

13.38

(1)	(2)	(3)
3. वि. पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० पानीपत, जिला पानीपत।		13. 09
4. वि. करनाल कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० करनाल, जिला करनाल।		13. 53
5. वि. सोनीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० सोनीपत, जिला सोनीपत।		12. 50
पंजाब		
1. दि. मोरिडा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० मोरिडा, जिला रायपुर।		14. 26
2. दि. मालवा शुगर मिल्स क० लि० पो०भ्रा० धुरी, जिला संगरूर।		12. 79
3. दि. जगजीत शुगर मिल्स क० लि० पो०भ्रा० फगवाड़ा, जिला कपूरथला।		14. 12
4. दि. दोआबा कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० नवांशहर, जिला जालंधर।		14. 26
5. दि. जनता कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० भोगपुर, जिला जालंधर।		14. 26
6. दि. बटाला कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० बटाला, जिला गुरदासपुर।		16. 03
उत्तरप्रदेश		
1. दि. मोदी इण्डस्ट्रीज लि० पो०भ्रा० मोदीनगर, जिला गाजियाबाद।		14. 41
2. यू०पी० स्टेट शुगर कोआपरेटिव लि० यूनिट मोही उद्दीनपुर, पो०भ्रा० मोही उद्दीनपुर, जिला मेरठ।		13. 53
3. दि. जमवन्त शुगर मिल्स लि० मेरठ सो०टी० जिला मेरठ।		13. 38
4. वि. बौराला शुगर वर्क्स पो०भ्रा० बौराला, जिला मेरठ।		16. 03
5. वि. यू०पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट सब्बोती टांडा, पो०भ्रा० सब्बोती टांडा, जिला मेरठ।		12. 50
6. वि. मबाना शुगर वर्क्स, पो०भ्रा० मबाना जिला मेरठ।		15. 00
7. दि. बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० बागपत, जिला मेरठ।		13. 38
8. मैमर्मे रामला सखारी बीनी मिल्स लि० रामला, जिला मेरठ।		14. 71
9. मिम्बावली शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० मिम्बावली, जिला गाजियाबाद।		14. 85
10. दि. त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० (शुगर यूनिट अवर इंडिया शुगर मिल्स) पो०भ्रा० खनीली, जिला मुजफ्फरनगर।		14. 85
11. वि. स्वतंत्र वेजीटेबल प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज, लि० पो०भ्रा० मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर।		13. 38
12. दि. अमृतसर शुगर मिल्स क० लि०, रोहन्कली पो०भ्रा० रोहाना, जिला मुजफ्फरनगर।		14. 71
13. वि. अमर बोझा शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० शामली, जिला मुजफ्फरनगर।		13. 97
14. वि. पन्नीजी शुगर एण्ड जनरल मिल्स क०, पन्नीनगर, बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर।		13. 38
15. वि. किमान सहकारी बीनी मिल्स लि० अनूपशहर, (बुलन्दशहर), पो०भ्रा० जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।		14. 71
16. दि. गंगेश्वर लि० पो०भ्रा० देवचन्द, जिला सहारनपुर।		13. 97
17. वि. लाई कृष्णा शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० सहारनपुर, जिला सहारनपुर।		13. 97
18. वि. किमान कोआपरेटिव शुगर क० लि०, पो०भ्रा० सरसावां, जिला सहारनपुर।		13. 82
19. वि. महालक्ष्मी शुगर मिल्स क० लि०, पो०भ्रा० इकबालपुर, जिला सहारनपुर।		13. 97
20. वि. राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स प्रा०लि०, लखमर जंक्शन, जिला सहारनपुर।		13. 97
21. दि. श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड क०, पो०भ्रा० खोईवाला, जिला देहरादून।		14. 71
22. वि. किमान सहकारी बीनी मिल्स लि० साथा (हरदुआगंज), पो०भ्रा० साथा, जिला अलीगढ़।		12. 94
23. वि. छाता शुगर क० लि०, पो०भ्रा० छाता, जिला मथुरा।		14. 41
24. दि. शिव प्रसाद बनारसी दाम शुगर मिल्स, पो०भ्रा० बिजनौर, जिला बिजनौर।		14. 12
25. वि. चांदपुर शुगर क० लि०, पो०भ्रा० चांदपुर, जिला बिजनौर।		14. 12
26. दि. धामपुर शुगर मिल्स लि० पो०भ्रा० धामपुर, जिला बिजनौर।		14. 12
27. दि. अमर गंगेश शुगर मिल्स लि०, पो०भ्रा० सिधौहरा, जिला बिजनौर।		14. 56
28. दि. अजुध्या शुगर मिल्स, पो०भ्रा० राजा-का-सहमपुर, जिला मुरादाबाद।		12. 50
29. वि. कुन्द शुगर मिल्स, प्रा०लि०, पो०भ्रा० अमरोहा, जिला मुरादाबाद।		13. 68
30. दि. रजा बुलन्द शुगर क०लि०, पो०भ्रा० रामपुर, जिला रामपुर।		13. 09
31. दि. खजिलास किसान सहकारी बीनी मिल्स लि०, बिलासपुर, जिला रामपुर।		12. 79
32. वि. केसर शुगर वर्क्स लि०, पो०भ्रा० बहेरी, जिला बरेली।		14. 71
33. दि. एच०भ्रा० शुगर फैक्ट्री प्रा०लि०, पो०भ्रा० बरेली, जिला बरेली।		13. 24
34. दि. रोजा शुगर वर्क्स आफ कैरू एण्ड क० लि०, पो०भ्रा० रोजा, जिला शाहजहाँपुर।		13. 82
35. वि. किमान सहकारी बीनी मिल्स लि०, राजपुर-पूरनपुर-नदेही, पो०भ्रा० जेसपुर, जिला नैनीताल।		13. 24
36. वि. एम०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, पो०भ्रा० काशीपुर, जिला नैनीताल।		13. 82
37. वि. बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, लि०, पो०भ्रा० बाजपुर, जिला नैनीताल।		15. 15
38. दि. किछा शुगर क०लि०, पो०भ्रा० किछा, जिला नैनीताल।		14. 71
39. वि. किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो०भ्रा० मसोला, जिला पीलीभीत।		14. 12
40. दि. एन०एच० शुगर फैक्ट्रीज लि०, पो०भ्रा० पीलीभीत, जिला पीलीभीत।		13. 53

(1)	(2)	(3)
41. दि बिसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो०आ० बिसालपुर, जिला पीलीभीत।		13. 24
42. दि नेवली शहर फेक्ट्री एण्ड इण्डस्ट्री मानपुरन गरिया, पो०आ० नेवली, जिला एटा।		14. 12
43. दि शारदा शहर एण्ड इण्डस्ट्री लि०, पो०आ० बक्स नं० 30 पो०आ० पारिया, जिला खीरी।		13. 68
44. दि हिन्दुस्तान शहर मिल्स लि०, पो०आ० गौला, गोकर्ननाथ, जिला खीरी।		13. 53
45. दि गोबिन्द शहर मिल्स लि०, पो०आ० ऐरा एस्टेट, जिला खीरी।		14. 12
46. दि भ्रवध शहर मिल्स लि०, पो०आ० हरगांव, जिला मोतापुर।		14. 12
47. दि सक्मगरिया बिसवां शहर फेक्ट्री लि०, पो०आ० बिसवां, जिला सीतापुर।		14. 71
48. दि लक्ष्मीजी शहर मिल्स कं० प्रा० लि०, पो०आ० महोली, जिला मोतापुर।		13. 53
49. दि लक्ष्मी शहर एण्ड आयल मिल्स लि०, हरदोई, जिला हरदोई।		13. 24
50. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० आ० कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद।		13. 97
51. दि रत्ना शहर मिल्स कं० लि०, पो०आ० शाहगंज जिला जौनपुर।		14. 26
52. दि नन्दगंज-शाहोरी शहर कं० लि० पो०आ० नन्दगंज, जिला गाजापुर।		12. 50
53. दि नन्दगंज-शीहोरी शहर कं० लि०, दर्यापुर, जिला रायबरेली।		14. 41
54. दि के० एम० शहर मिल्स लि०, मांतानगर शहर मिल्स मांतानगर, जिला फैजाबाद।		14. 41
55. दि यू०पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट बाराबंकी, पो०आ० बाराबंकी, जिला बाराबंकी।		13. 38
56. दि बुडवाल शहर मिल्स कं० लि०, पो०आ० बुडवाल, जिला बाराबंकी।		12. 94
57. दि भार०बी० लक्ष्मणदास शहर एण्ड जनरल मिल्स प्रा० लि०, पो०आ० जरवल रोड, जिला बहराइच।		12. 65
58. दि बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, पो०आ० बलरामपुर, जिला गोण्डा।		15. 00
59. दि तुलसीपुर शहर कं० लि०, तुलसीपुर फेक्ट्री ब्रांच, पो०आ० तुलसीपुर जिला गोण्डा।		13. 68
60. दि नवाबगंज शहर मिल्स कं० लि०, पो०आ० शहर फेक्ट्री, नवाबगंज, जिला गोण्डा।		14. 41
61. दि सेक्सरिया शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० बभनमान, जिला गोण्डा।		12. 50
62. दि बस्ती शहर मिल्स कं० लि०, पो०आ० वाल्टरगंज, जिला बस्ती।		14. 41
63. दि बस्ती शहर मिल्स कं० लि०, पो० आ० बस्ती, जिला बस्ती।		15. 88
64. दि माधो महेश शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० मुन्वेरवा, जिला बस्ती।		13. 82
65. दि श्री आनन्द शहर मिल्स, पो० आ० खलीलाबाद, जिला बस्ती।		14. 26
66. दि गणेश शहर मिल्स, पो० आ० आनन्दनगर, जिला गोरखपुर।		13. 68
67. दि सराया शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० सरदारनगर, जिला गोरखपुर।		13. 68
68. दि यू०पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, पो० आ० पोपराइच, जिला गोरखपुर।		13. 53
69. पंजाब शहर मिल्स कं० लि०, पो० आ० घुघली, जिला गोरखपुर।		13. 09
70. दि महाबीर शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० सिसवाबाजार, जिला गोरखपुर।		12. 65
71. दि यू०पी० स्टेट शहर कारपोरेशन, लि०, यूनिट खड्डा, पो० आ० राजा बाजार खड्डा, जिला देवरिया।		13. 09
72. दि लक्ष्मी देवी शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० चितौनी, जिला देवरिया।		12. 50
73. शंकर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पो०आ० कैप्टनगंज, जिला देवरिया।		13. 97
74. दि ईश्वरी खतान शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० लक्ष्मी गंज, जिला देवरिया।		13. 68
75. महेश्वरी खतान शहर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० रामकोला, जिला देवरिया।		13. 24
76. दि गणेश्वर लि०, पो० आ० रामकोला, जिला देवरिया।		14. 26
77. दि कानपुर शहर बक्स लि०, पदरोना फेक्ट्री ब्रांच, पो०आ० पदरोना, जिला देवरिया।		13. 82
78. दि कानपुर शहर बक्स लि०, कायकुयान फेक्ट्री ब्रांच, पो०आ० कायकुयान, जिला देवरिया।		14. 12
79. दि यूनाइटेड प्रोविन्स शहर कं० लि०, पो० आ० सेवराही, जिला देवरिया।		13. 82
80. श्री सीताराम शहर कं० लि०, पो० आ० बैतालपुर, जिला देवरिया।		14. 12
81. दि कानपुर शहर बक्स लि०, गौरी फेक्ट्री ब्रांच, गौरी बाजार, जिला देवरिया।		13. 82
82. दि देवरिया शहर मिल्स लि०, पो० आ० देवरिया, जिला देवरिया।		14. 12
83. दि यू० पी० स्टेट शहर कारपोरेशन लि०, यूनिट भातनी, पो० आ० भातनी, जिला देवरिया।		13. 68
84. दि प्रतापपुर शहर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, प्रतापपुर पो० आ०, जिला देवरिया।		12. 94
85. दि काशी सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो०आ० घोराई, जिला वाराणसी।		13. 24
86. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० आ० रासरा, जिला बलिया।		13. 38
87. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० आ० सथियान, जिला आजमगढ़।		14. 41
88. दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, पो० आ० बवायूं, जिला बवायूं।		13. 53
89. एक्सपेरिमेंट शहर फेक्ट्री, नेशनल शहर इन्स्टीट्यूट, पो० आ० कल्याणपुर, जिला कानपुर।		12. 50

बिहार

1. दि नार्थ बिहार शहर मिल्स लि०, पो० आ० नरायपुर, जिला चम्पारन।	13. 38
2. दि हरिनगर शहर मिल्स लि०, पो०आ० हरिनगर, जिला चम्पारन।	15. 59

(1)	(2)	(3)
3. दि न्यू स्वदेशी शुगर मिल्स लि०, पो० आ० नरकटियागंज, जिला चम्पारन ।		14. 12
4. दि चम्पारन शुगर कं० लि०, बराहू फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० बराहूकिया, जिला चम्पारन ।		12. 50
5. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शुगर लि०, पो० आ० खारिया, जिला चम्पारन ।		12. 94
6. दि मोतीलाल पदमपत्त उद्योग लि०, (शुगर मिल्स ब्रांच), पो० आ० मझौलिया, जिला चम्पारन ।		13. 53
7. दि गुगुली शुगर वर्क्स प्रा० लि०, पो० आ० गुगुली, जिला चम्पारन ।		12. 50
8. गोविन्द शुगर मिल्स लि०, लसी, आफ श्री हनुमान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, मोतीझारा, जिला चम्पारन ।		13. 38
9. दि चम्पारन शुगर कं० लि०, चम्पारन फैक्ट्री ब्रांच, पो० आ० चतपतिया, जिला चम्पारन ।		13. 38
10. दि बेल्गद शुगर कं० लि०, पो० आ० रीषा, जिला समस्तीपुर ।		14. 71
11. दि मोतीपुर शुगर फैक्ट्री प्रा० लि०, मोतीपुर पो० आ०, जिला मुजफ्फरनगर ।		12. 50
12. दि मोनलपुर शुगर वर्क्स लि०, पो० आ० गरील, जिला वैशाली ।		12. 50
13. दि ब्रिहद कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो० आ० रायम फैक्ट्री, जिला दरभंगा ।		12. 50
14. दि लोहाट शुगर वर्क्स आफ दि दरभंगा शुगर कं० लि०, पो० आ० लोहाट, जिला मधुबनी ।		12. 50
15. दि साफरी शुगर वर्क्स आफ दि दरभंगा शुगर कं० लि०, पो० आ० साफरी, जिला मधुबनी ।		12. 50
16. दि समस्तीपुर सेलूल शुगर कं० लि०, समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर ।		12. 50
17. दि न्यू इंडिया शुगर मिल्स लि०, हमनपुर रोड, पो० आ० हमनपुर शुगर मिल्स, जिला समस्तीपुर ।		13. 24
18. दि मासा मुसा शुगर वर्क्स प्रा० लि०, पो० आ० मासामुसा, जिला गोपालगंज ।		12. 65
19. दि त्रिणु शुगर मिल्स लि०, पो० आ० त्रिणु शुगर मिल्स, जिला गोपालगंज ।		12. 65
20. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शुगर लि०, पो० आ० मोरगंज, जिला गोपालगंज ।		13. 68
21. भारत शुगर मिल्स लि०, मिथनलिया, जिला गोपालगंज ।		13. 09
22. दि कानपुर शुगर वर्क्स लि०, मरहवरा फैक्ट्री ब्रांच मरहवरा, जिला मारण ।		12. 79
23. दि न्यू सावन शुगर मिल्स, पो० आ० मिथान, जिला मिथान ।		12. 94
24. श्री कृष्ण ज्ञानोदय शुगर लि०, पो० आ० मिथान, जिला मिथान ।		12. 50
25. दि पुणिया कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, बनमखी, जिला पुणिया ।		12. 50
26. दि साउथ बिहार शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बिहटा जिला पटना ।		12. 50
27. दि मोहिनी शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बारगालीगंज, जिला नवादा ।		12. 94
28. दि गुरारु चीनी मिल्स, पो० आ० गुरारु मिल्स, जिला गया ।		12. 94

पश्चिमी बंगाल

1. दि रामनगर केन एण्ड शुगर कं० लि०, पो० आ० पलासी, जिला नादिया ।	12. 50
2. दि ब्रह्मवपुर शुगर मिल्स, ब्रह्मवपुर, पो० आ०, जिला बोरधम ।	13. 09

असम

1. दि असम कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बरुआबामन गांध, जिला निबमागर ।	12. 50
2. दि काचर शुगर मिल्स लि०, चारंगोला, पो० आ० रातादारी, जिला काचर ।	12. 65

उड़ीसा

1. दि अस्का कोआपरेटिव शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० आ० अस्का, जिला गजाम ।	13. 24
2. दि जयपुर शुगर कं० लि०, रायगाड़ा, जिला कोरापुत ।	13. 38
3. दि बाडगढ़ कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पो० आ० बाडगढ़, जिला सम्भलपुर ।	12. 50

राजस्थान

1. दि गंगानगर शुगर मिल्स लि०, श्री गंगानगर, जिला गंगानगर ।	12. 50
2. दि सेवाड़ शुगर मिल्स लि०, पो० आ० भूपालमागर, जिला चित्तौड़गढ़ ।	14. 56
3. श्री किशोरामपट्टन सहकारी शुगर मिल्स लि०, पो० आ० किशोरामपट्टन, जिला बूंदी ।	15. 15

मध्य प्रदेश

1. दि खालियर शुगर कं० लि०, पो० आ० डबरा, जिला खालियर ।	14. 26
2. दि जीवाजी राव शुगर कं० लि०, पो० आ० दलौदा, जिला मंदसौर ।	13. 53
3. दि जाधरा शुगर मिल्स प्रा० लि०, पो० आ० जाधरा, जिला खलाम ।	13. 09
4. सेठ गोविन्द राम शुगर मिल्स पो० आ० सेहीवपुर रोड, जिला उज्जैन ।	13. 09
5. दि भोपाल शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, पो० आ० मिहौर, जिला मिहौर ।	13. 53
6. दि सरैना सेंट्रल सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० आ० कूतारस, जिला सरैना ।	13. 82

(1)

(2)

(3)

ग्रामपंचायत

1. दि श्री राम शुगम एण्ड इण्डस्ट्रियल लि०, पो०ब्रा० जिला श्रीकाकुलम	13. 53
2. दि अमवालावालसा कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड इंडस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो०ब्रा० अमवालावालसा, जिला श्रीकाकुलम	13. 97
3. चोदावरम कोआपरेटिव शुगर्स लि०, पो०ब्रा० गोवद, जिला विशाखापत्तनम	12. 65
4. दि अनाकापल्ली कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, शुगमापल्ली, अनाकापल्ली, जिला विशाखापत्तनम	12. 79
5. दि एनिकोपका कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पो०ब्रा० एनिकोपका, जिला विशाखापत्तनम	12. 79
6. दि थोडवा कोआपरेटिव शुगर्स लि०, पो०ब्रा० पयकराओपेटा, जिला विशाखापत्तनम	12. 79
7. दि विरलास्पुडी शुगर्स मिल लि०, पो०ब्रा० पिथापुरम, जिला पूर्वी गोदावरी	12. 50
8. दि दशरथ शुगर्स एण्ड आचकारी क० लि०, पो०ब्रा० समालकोट, जिला पूर्वी गोदावरी	12. 50
9. श्री मन्थरया शुगर लि०, पो०ब्रा० बेल्लूर, जिला पूर्वी गोदावरी	12. 79
10. श्री वी०एम० शुगर्स, पो०ब्रा० जगल्लू, जिला पश्चिमी गोदावरी	14. 26
11. दि ग्रान्धा शुगर्स लि०, पो०ब्रा० तनुकु, जिला पश्चिमी गोदावरी	13. 53
12. दि पालाकाल कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल सोसायटी लि०, पालाकोन, पो०ब्रा०, जिला पश्चिमी गोदावरी	12. 65
13. दि के०सी०पी० लि०, पो०ब्रा० व्यूरु, जिला कृष्णा	12. 79
14. दि बल्लापल्ली शुगर्स लि०, पो०ब्रा० बल्लापल्ली, जिला कृष्णा	12. 50
15. दि निजामाबाद कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, जिला निजामाबाद	15. 74
16. दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, मधुनगर, पो०ब्रा० दिदगी, ताल्लुक जहोराबाद, जिला मेदक	15. 29
17. दि चित्तूर कोआपरेटिव शुगर्स लि०, पो०ब्रा० तमावतापल्ले, चित्तूर, जिला चित्तूर	13. 24
18. श्री वेकटेश्वर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, गोजुलामाडपम पो०ब्रा०, जिला चित्तूर	12. 50
19. दि कुडडाया कोआपरेटिव शुगर्स लि०, दोहथापुरम, कुड्डापा तालुक, जिला कुड्डापा	13. 09
20. मेमर्स काश्चर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पोथीरेड्डीपत्तन (पोस्ट), कोश्चर तालुक, जिला नेल्लोर	12. 50
21. दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पो०ब्रा० मिरयालगुड्डा, जिला नलगोंडा	12. 65
22. श्री विजयरामा गजपति कोआपरेटिव शुगर्स लि०, भीममिरी, पो०ब्रा० कुरुकोडा, जिला विशाखापत्तनम	12. 94
23. निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, पो०ब्रा० शकरनगर, जिला निजामाबाद	15. 15
24. वैन्ट गोदावरी कोआपरेटिव शुगर्स लि०, भामाडोल, जिला वैन्ट गोदावरी	13. 09
25. दि निजाम शुगर फैक्ट्री लि०, हिरूपुर, जिला अनन्तापुर	12. 50
26. श्री रामा शुगर्स एण्ड रिफायनेरिज लि०, पो०ब्रा० सोथानगरम जिला श्रीकाकुलम	14. 56

गुजरात

1. श्री खेबुत सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, सरदार बेग, बारहोली, जिला सूरत	16. 32
2. श्री साधी विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, पो०ब्रा० साधी जिला सागर	17. 06
3. श्री चल्थान विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, पो०ब्रा० चल्थान, जिला सूरत	17. 06
4. श्री सायन विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, सायन, ताल, ओलपेड, जिला सूरत	14. 12
5. दी सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, गणदेवी वाया बिल्लीमारा, जिला वलसार	16. 18
6. श्री मरोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मण्डली लि०, पो०ब्रा० मरोली, ताल नक्षसारी, जिला वलसाड	14. 85
7. श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेबुत सहकारी मण्डली लि०, पो०ब्रा० कोडिनार, जिला अमरेली	14. 56
8. दि अमरेली सहकारी कृषि खांड उद्योग लि०, गवादका, जिला अमरेली	13. 53
9. श्री तालावा तालुक सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, तालावा, जिला जूनागढ़	14. 41
10. श्री ऊना तालुक सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, पो०ब्रा० उना, जिला जूनागढ़	13. 97
11. दि चांगेनार सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, पलाज, तालुक पेतसाड, जिला कैरा	13. 82
12. श्री सरदार वल्लभभाई पटेल खांड उद्योग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, जमनाबाद रोड, घोराणी, जिला राजकोट	12. 94
13. श्री बलसाड सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, पकलिया पार्सी, तालुक, जिला वलसाड	14. 71

महाराष्ट्र

1. दि गवलगांव शुगर फार्म लि०, (पो०ब्रा० रावलगांव), जिला नासिक	15. 29
2. दि शिरना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०ब्रा० दाभाडी, तालुक मानेगांव, जिला नासिक	16. 03
3. दि निफाव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०ब्रा० भाउसाहेब नगर, तालुक निफाव, जिला नासिक	17. 06
4. दि कर्मवीर काकासाहेब बाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, काकासाहेब नगर, पोस्ट रणबाड, तालुक निफाव, जिला नासिक	16. 18
5. दि कडवा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गट एण्ड पो०ब्रा० मानेरबाडी, तालुक डिंडोरी, जिला नासिक	14. 85
6. दि नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पालसे, तालुक एण्ड जिला नासिक	16. 03
7. दि संजीवनी (नक्ली) सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट मिरापुर, पो०ब्रा० कोपेरगांव, जिला अहमदनगर	16. 18
8. दि कोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गौतमनगर, पो०ब्रा० कोलपेबाडी, तालुक कोपेरगांव, जिला अहमदनगर	16. 32
9. दि गोदावरी शुगर मिल लि०, पो०ब्रा० लक्ष्मीबाडी बाया कोपेरगांव, जिला अहमदनगर	16. 18

(1)

(2)

(3)

10. वि गोदावरी शहर मिल्स लि०, पो०आ० शंकरवाड़ी, वाया कान्हावा, जिला अहमदनगर	15. 74
11. श्री चंगवेव शहर मिल्स लि०, पो०आ० चंगवेव नगर, जिला अहमदनगर	15. 74
12. श्री गणेश सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गणेशनगर, पो०आ० राजनगाव खुर्द, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर	16. 03
13. दि अशोक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अशोकनगर, पो० कोपेरगाव फैट्टी, तालुक श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर	15. 74
14. दि बेलापुर शहर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रिज लि०, पो०आ० हरिगांव, जिला अहमदनगर	16. 47
15. दि महाराष्ट्र शहर मिल्स लि०, पो०आ० निलकनगर, जिला अहमदनगर	16. 32
16. प्रवर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रवरनगर, जिला अहमदनगर	15. 59
17. दि राहुरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, श्री शिवाजीनगर, पोस्ट राहुरी फैट्टी, जिला अहमदनगर	16. 18
18. संगमनेर भाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अमृतनगर, पोस्ट तालुक संगमनेर, जिला अहमदनगर	16. 32
19. श्री ध्यानेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भेड, तालुक नेवागा, जिला अहमदनगर	16. 62
20. श्री गोंडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट श्री गोंडा फैट्टी, जिला अहमदनगर	15. 44
21. श्री जगदम्बा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रभिन, तालुक करजत, जिला अहमदनगर	16. 03
22. दि गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद	15. 00
23. दि विनायक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, परसोवा, पो०आ० देवदोनगरी, तालुक वैजापुर, जिला औरंगाबाद	15. 59
24. दि मृला सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सोनई, तालुक निवासा, जिला अहमदनगर	15. 59
25. दि कल्लह सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० कल्लह, जिला औरंगाबाद	15. 88
26. श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, सोमेश्वरनगर, तालुक बागमती, जिला पूना	17. 35
27. दि मिहेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० मिसोव, जिला औरंगाबाद	16. 76
28. दि मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मालेगांव बी०के० (गिवनगर) तालुक बोरामती, जिला पूना	16. 03
29. श्री छत्रपति सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भवानीनगर, तालुक ईंहापुर, जिला पूना	16. 18
30. दि बालचन्दनगर इण्डस्ट्रिज लि०, पो०आ० बालचन्दनगर, जिला पूना	15. 00
31. दि यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रकलुज, यशवन्त नगर, तालुक भागशिरस, जिला शोलापुर	15. 59
32. दि यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, चित्तमणिनगर, पो०आ० येयूर, तालुक हवेली, जिला पूना	15. 59
33. दि साखेद मास्वी शहर फैट्टी लि०, पो०आ० मास्वीनगर, जिला शोलापुर	15. 29
34. दि शिमा शहर लि०, पो०आ० श्रीपुर, तालुक भागशिरस, जिला शोलापुर	15. 44
35. श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० सदाशिवनगर, तालुक भागशिरस, जिला शोलापुर	16. 32
36. श्री मिहेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुमाथे, पोस्ट टिकेकरवाड़ी, तालुका उत्तरी शोलापुर, जिला शोलापुर	16. 62
37. दि तेरना शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धांकी, तालुक श्रीर जिला ओसमानाबाद	16. 03
38. दि सतारा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भंज, तालुक बाही, जिला सतारा	15. 88
39. शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कल्लारी, जिला ओसमानाबाद	16. 47
40. दि फाल्टान शहर वर्क्स लि०, पो०आ० सखरवाड़ी, जिला सतारा	16. 32
41. दि श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० फाल्टान, जिला सतारा	16. 03
42. दि बालामातेज देसाई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, भीलनगर (मरोली), तालुक पाटन, जिला सतारा	18. 09
43. दि कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पेठारें बुदरूक, पो०आ० गिवनगर, जिला सतारा	18. 24
44. दि शायबि सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवन्तनगर, तालुक करद, जिला सतारा	17. 94
45. दि शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० संगली, जिला संगली	17. 06
46. दि वाल्हा तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० हस्लामपुर, तालुक वाल्हा, जिला संगली	17. 65
47. दि विष्णवस सहकारी शक्कर कारखाना लि०, यशवन्तनगर, तालुक शिरगला, जिला संगली	18. 09
48. श्री वरणा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० वरणानगर, तालुक पश्रीहीला, जिला संगली	18. 68
49. श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बालकरेंजी, जिला कोल्हापुर	17. 50
50. दि भांगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० शाहूनगर, जिला कोल्हापुर	17. 79
51. दि कोल्हापुर शहर मिल्स लि०, केशव बाबावा, कोल्हापुर, जिला कोल्हापुर	17. 50
52. दि कुम्भी केमरी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० कुबिरे, तालुक करवीर, जिला कोल्हापुर	18. 24
53. श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, विवरी (मोर्नीनगर) तालुक कागल, जिला कोल्हापुर	17. 35
54. दि बीलत भेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट हलकारनो, तालुक चांदगं, जिला कोल्हापुर	17. 50
55. दि गधईनवाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गधईनवाज, जिला कोल्हापुर	17. 21
56. दि कालाम्बर विभाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कालाम्बर, पोस्ट गोधीनगर, तालुक खद्वार, जिला नानवेद	13. 97
57. श्री पंजागन सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मबने, तालुक सकरी, जिला धूलिया	15. 44
58. श्री सतपुशा तापी परिसर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० पुरुषोत्तमनगर, तालुक शहादा जिला धूलिया	15. 29
59. दि जीजामाता सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दुनरबिन्द, तालुक सहकार, जिला बुल्डाना	15. 44
60. दि वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पूसव पो०आ० जिलायोनमाल	15. 74
61. दि अम्बाजोगई सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० अम्बाजोगई जिला और	16. 76

(1)	(2)	(3)
62. वि जय भवानी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० गौघोगाई, जिला भीर		15. 59
63. दि काश सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कावा, तालुक अम्नी, जिला भीर		15. 74
64. दि वसन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० कसोडा, तालुक हरतडोल, जिला जलगांव		14. 41
65. दि मनुकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, न्हावी मार्ग, फैजपुर, जिला जलगांव		14. 12
66. दि बलगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, (पोरम), पोस्ट चालीसगांव, जिला जलगांव		14. 41
67. दि मराठवाडा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पोस्ट डोंकरकडा, तालुक कलमनूरी जिला परबनी		14. 56
68. श्री वृधेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, धाविनाथनगर, पोस्ट वृधेश्वर शक्कर कारखाना, तालुक तथाधि, जिला ग्रहमवनगर		14. 41
69. श्री वत्सा शेनकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिरोल, जिला कालबापुर		17. 94

तमिलनाडु

1. दि अम्बूर कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, बड़ापुडुपेट, पोस्ट अम्बूर, जिला उत्तरी अरकोट		13. 97
2. दि तिरुपत्तूर कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, केठपट्टीजिलेज तथा पोस्ट वार्णयम्बादी तालुक, जिला उत्तरी अरकोट		15. 00
3. दि वेल्लोर कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० भ्रा० वेल्लोर शुगर मिल (निकट तिरुवन्म रेलेवे स्टेशन) जिला उत्तरी अरकोट		12. 94
4. दि मदुरान्तकम कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० भ्रा० पदलम, जिला चिंगलेपुर		13. 53
5. दि ई० भ्राई० डी० पैरी लि०, पो० भ्रा० नेलीकुप्पम, जिला दक्षिणी अरकोट		12. 50
6. दि माउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर लि०, पो० भ्रा० मंडियाप्पकम, तालुक विल्लुपुरम, जिला दक्षिण अरकोट		12. 50
7. दि अरुणा शुगर लि०, पो० भ्रा० पेन्नादम, जिला दक्षिणी अरकोट		13. 83
8. दि कल्लाकुची कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० भ्रा० मुंगिलथुडु, जिला दक्षिणी अरकोट		12. 50
9. धिरु अरुण शुगर लि०, बाड़ापतिमंगलम, जिला बंजूर		13. 53
10. दि तमिलनाडु शुगर कारपोरेशन लि०, (थैजावर शुगर मिल) कुरुगुलम वाया वल्लम, जिला बंजूर		13. 53
11. दि कोठारी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, पो० भ्रा० सालागुडी, जिला त्रिची		13. 24
12. दि कावेरी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, कावेरी फैक्ट्री, पो० भ्रा० पेट्टावायतलाई, जिला त्रिची		12. 79
13. दि वक्कन शुगर एण्ड ब्राह्मकारी कं० लि०, पुगवूर शुगर फैक्ट्री, जिला त्रिची		12. 94
14. दि सलेम कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, मोहनूर, वाया करूर, जिला सलेम		13. 09
15. दि पेरम्बलूर शुगर मिल लि०, (पण्डित जवाहर लाल नेहरू), इराईयूर विलेज, पेरम्बलूर तालुक, जिला त्रिची		13. 38
16. दि शक्ति शुगर लि०, पो० भ्रा० शक्तिनगर, इरोड आर० एम० एस०, जिला कोयम्बटूर		13. 24
17. दि अमरावती कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, कृष्णापुरम् पोस्ट, जिला कोयम्बटूर		12. 79
18. दि मदुरा शुगर लि०, पो० भ्रा० पांडिराजपुरम्, जिला मदुरई		12. 50
19. दि नेशनल कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, पो० भ्रा० सेट्टपत्ती, वाया अलगनल्लूर, जिला मदुरई		13. 09
20. दि धर्मपूरी जिला कोआपरेटिव शुगर मिल लि०, पोस्ट पालाकोडै, जिला धर्मपूरी		15. 00

गोआ

1. दि संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, बयानन्व नगर, पोस्ट उसगांव, सगयेम (गोआ)	13. 38
--	--------

कर्नाटक

1. दि उगार शुगर वर्क्स लि०, पो० भ्रा० उगारधुर्वे, जिला बेलगांव	16. 76
2. दि हिरण्यकेशी सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० भ्रा० मकेयवर, जिला बेलगांव	17. 50
3. श्री मालाप्रभा कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, भुगत खान हुबली, जिला बेलगांव	16. 47
4. श्री बूधगंगा कृष्ण सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, पो० भ्रा० चिकोडी, जिला बेलगांव	17. 06
5. रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, रायबाग, जिला बेलगांव	16. 03
6. दि गंगावती शुगर लि०, मारली, श्रीरामनगर पोस्ट, गंगावती तालुक, जिला रायचूर	12. 50
7. दि इण्डिया शुगर एण्ड रिफायनरिज लि०, पो० भ्रा० होसपेट, जिला बेल्लारी	15. 00
8. दि सालार जंग शुगर मिल (ए डिबीजन प्राफ इण्डिया शुगर एण्ड रिफायनरीज लि०) पो० भ्रा० मुनिराबाद, जिला रायचूर	15. 15
9. दि काम्पली कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो० भ्रा० काम्पली शुगर फैक्ट्री, जिला बेल्लारी	14. 26
10. दि कोठारी शुगर एण्ड कैमिकल्स लि० पो० भ्रा० निरुगप्पा, जिला बेल्लारी	14. 71
11. श्री मुकेश टेक्सटाइल मिल (पी) लि०, (तुगभद्रा शुगर वर्क्स), पो० भ्रा० मिमोगा, जिला सिमोगा	15. 00
12. दि पांडवपुरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पांडवपुरा, जिला मांड्या	15. 29
13. दि सैमूर शुगर कं० लि०, मांड्या पो० भ्रा०, जिला मांड्या	14. 41
14. श्री जामुण्डेश्वरी शुगर लि०, कलामुड्डाना डोडी, तह० सहूर, जिला मांड्या	14. 41
15. दि गौरी विदामूर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० भ्रा० गौरी बिदामूर, जिला कोसार्	14. 71
16. दि बीदार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, हाल्लीखेव एम० एफ०, जिला बिवार	15. 74
17. दि वेवनगिरि शुगर कं० लि०, कुक्कावाडा, तालुक देवनगिरि, जिला चित्रदुर्ग	14. 12

(1)	(2)	(3)
18. दि बाणी विलाम कोम्पापरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, पो०आ० त्रिरिपुर, जिला चित्रदुर्ग		15.00
19. श्री महादेवसर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो०आ० कोलिराल, जिला मेमुर		14.56
20. सोमैया शुगर वर्क्स समीरवाडी, बायामहा लिमिटेड, तालुक मयीन, जिला बिजापुर		16.03
21. भाद्रा सहकारी शक्कर कारखाना निगमित, डाहूबावडी, देवरगिरि तालुक, जिला चित्रदुर्ग		12.49

केरल

1. दि ट्रावनकोर शुगर एण्ड कैमिकल्स लि०, पुम्बा रोवर फैक्ट्री, पो०आ० तिरुवल्ला, जिला अरलेयी	12.50
2. दि मन्नम शुगर मिल्स कोम्पापरेटिव लि०, नं० 4324, पो०आ० पण्डलम, जिला अरलेयी	12.50
3. दि कोम्पापरेटिव शुगर लि०, चित्तूर, पो०आ० सैननपारा, जिला पालघाट	13.68

नागालैण्ड

1. दि नागालैण्ड शुगर मिल्स लि०, पो०आ० दोमापुर, (नागालैण्ड)	12.50
--	-------

पाण्डिचेरी

1. दि न्यू इरोरीजन शुगर मिल्स प्रा० लि०, शक्कर (अरिओर) कडामगलम पोस्ट, पाण्डिचेरी	12.50
--	-------

[संख्या 3-5/79-एस०पी०वाई० (डी-II)]

सी० एन० राधकन, सचिव सचिव (शर्का)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 1979

G.S.R. 577(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and having regard to various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 484(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated the 1st October, 1978 the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 12.50 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 14.7059 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price and shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factories specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year, 1979-80 until the 30th September, 1980, subject to the rebates payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Factory	Minimum Sugarcane price in rupees per quintal
1	2	(3)
HARYANA		
1.	The Saraswati Sugar Mills, P.O. Yamunanagar, District Ambala	12.65
2.	The Haryana Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Rohtak, District Rohtak	13.38
3.	The Panipat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Panipat, Distt. Karnal	13.09
4.	The Karnal Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Karnal, District Karnal	13.53
5.	The Sonapat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Sonapat, Distt. Sonapat	12.50
PUNJAB		
1.	The Morinda Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Morinda, District Rupar	14.26
2.	The Malwa Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Dhuri, District Sangrur	12.79
3.	The Jagatjit Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Phagwara, District Kapurthala	14.12
4.	The Doaba Cooperative Sugar Mills Ltd., Nawanshahr, District Jullundur	14.26
5.	The Janta Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bhogpur, District Jullundur	14.26
6.	The Batala Cooperative Sugar Mills Ltd., Batala P.O., District Gurdaspur	16.03

1	2	3
UTTAR PRADESH		
1. The Modi Industries Ltd., P.O. Modinagar, Distt. Ghaziabad		14.41
2. U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Mohiuddinpur, P.O. Mohiuddinpur, Distt. Meerut		13.53
3. The Jaswant Sugar Mills Ltd., Meerut City, Distt. Meerut		13.38
4. The Daurala Sugar Works, P.O. Daurala, Distt. Meerut		16.03
5. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Sakhotitanda, P.O. Sakhotitanda, Distt. Meerut		12.50
6. The Mawana Sugar Works, P.O. Mawana, Distt. Meerut		15.00
7. The Bagpat Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bagpat, Distt. Meerut		13.38
8. M/s. Ramala Sahkari Chini Mill Ltd., Ramala, Distt. Meerut		14.71
9. The Simbhaoli Sugar Mills Ltd., P.O. Simbhaoli, Distt. Ghaziabad.		14.85
10. The Triveni Engineering Works Ltd., (Sugar Unit Upper India Sugar Mills) P.O. Khatauli, Distt. Muzaffarnagar		14.85
11. The Swarup Vegetable Products Industries Ltd., P.O. Mansurpur, Distt. Muzaffarnagar		13.38
12. The Anritsar Sugar Mills Co. Ltd., Rohanakalan, P.O. Rohana Mills, Distt. Muzaffarnagar		14.71
13. The Upper Doab Sugar Mills Ltd., P.O. Shamli, Distt. Muzaffarnagar		13.97
14. The Pannijee Sugar & General Mills Co., Panninagar, Bulandshahr, Distt. Bulandshahr		13.38
15. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Anoopshahr (Bulandshahr) P.O. Jahangirabad, Distt. Bulandshahr		14.71
16. The Gangeshwar Ltd., P.O. Dooband, Distt. Saharanpur		13.97
17. The Lord Krishna Sugar Mills Ltd., P.O. Saharanpur, Distt. Saharanpur		13.97
18. The Kisan Cooperative Sugar Co. Ltd., P.O. Sarsawa, Distt. Saharanpur		13.82
19. The Mahalakshmi Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Iqbalpur, Distt. Saharanpur		13.97
20. The Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Pvt. Ltd., Lhaker Jn., Distt. Saharanpur		13.97
21. The Shri Janki Sugar Mills & Co. P.O. Doiwala, Distt. Dehradun		14.71
22. The Kissan Sahakari Chini Mills Ltd., Satha, (Harduaganj) P.O. Satha, Distt. Aligarh		12.94
23. The Chhata Sugar Co. Ltd., P.O. Chhata, Distt. Mathura		14.41
24. The Shiv Prasad Banarsidas Sugar Mills., P.O. Bijnor, Distt. Bijnor		14.12
25. The Chandpur Sugar Co. Ltd., P.O. Chandpur, Distt. Bijnor		14.12
26. The Dampur Sugar Mills Ltd., P.O. Dampur, Distt. Bijnor		14.12
27. The Upper Ganges Sugar Mills Ltd., P.O. Seohara, Distt. Bijnor		14.56
28. The Ajudhia Sugar Mills, P.O. Raja-ka-Sahaspur, Distt. Moradabad		12.50
29. The Kundan Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Amroha, Distt. Moradabad		13.68
30. The Raza Buland Sugar Co. Ltd., P.O. Rampur, Distt. Rampur		13.09
31. The Rudra-Bilas Kissan Sahkari Chini Mills Ltd., Bilaspur, Distt. Rampur		12.79
32. The Kesar Sugar Works Ltd., P.O. Baheri, Distt. Bareilly		14.71
33. The H.R. Sugar Factory Pvt. Ltd., P.O. Bareilly, Distt. Bareilly		13.24
34. The Rosa Sugar Works of Carew & Co. Ltd., P.O. Rosa, Distt. Shahjahanpur		13.82
35. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Rajpur-Pooranpur-Nadehi, P.O. Jespur, Distt. Nainital		13.24
36. The L.H. Sugar Factories Ltd., P.O. Kashipur, Distt. Nainital		13.82
37. The Bazpur Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Bazpur, Distt. Nainital		15.15
38. The Kichha Sugar Co. Ltd., P.O. Kichha, Distt. Nainital		14.71
39. The Kisan Cooperative Sugar Factory Ltd., P.O. Majhola, Distt. Pilibhit		14.12
40. The L.H. Sugar Factories Ltd., P.O. Pilibhit, Distt. Pilibhit		13.53
41. The Bisalpur Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., P.O. Bisalpur, Distt. Pilibhit		13.24
42. The Neoli Sugar Factory Manpurnagar, P.O. Neoli, Distt. Etah		14.12
43. The Sharda Sugar & Industries Ltd., P.O. Box No. 30 P.O. Palia, Distt. Kheri		13.68
44. The Hindustan Sugar Mills Ltd., P.O. Golagokarannath, Distt. Kheri		13.53
45. The Gobind Sugar Mills Ltd., P.O. Aira Estate, Distt. Kheri		14.12
46. The Oudh Sugar Mills Ltd., P.O. Hargaon, Distt. Sitapur		14.12
47. The Seksaria Biswan Sugar Factory Ltd., P.O. Biswan, Distt. Sitapur		14.71
48. The Lakshmiji Sugar Mills Co. Pvt. Ltd., P.O. Maholi, Distt. Sitapur		13.53
49. The Lakshmi Sugar & Oil Mills Ltd., Hardoi, Distt. Hardoi		13.24
50. The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Kaimganj, Distt. Farrukhabad		13.97
51. The Ratna Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Shahganj, Distt. Jaunpur		14.26
52. The Nandganj-Sihori Sugar Company Ltd., P.O. Nandganj, Distt. Ghazipur		12.50
53. The Nandganj Sihori Sugar Co. Ltd., Daryapur, Distt. Rae Bareilly		14.41
54. The K.M. Sugar Mills Ltd., Motinagar Sugar Mills, Motinagar, Distt. Faizabad		14.41
55. The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Barabanki, P.O. Barabanki, Distt. Barabanki		13.38
56. The Burhwal Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Burhwal, Distt. Barabanki		12.94
57. The R.B. Lachmandas Sugar & General Mills Pvt. Ltd., P.O. Jarwal Road, Distt. Bahraich		12.65
58. The Balrampur Chini Mills Ltd., P.O. Balrampur, Distt. Gonda		15.00
59. The Tulsipur Sugar Co. Ltd., Tulsipur Factory Branch, P.O. Tulshipur, Distt. Gonda		13.68
60. The Nawabganj Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Sugar Factory, Nawabganj, Distt. Gonda		14.41
61. The Seksaria Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Bhabhnan, Distt. Gonda		12.50
62. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Walterganj, Distt. Basti		14.41
63. The Basti Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Basti, Distt. Basti		15.88

1	2	3
64.	The Madho Mahesh Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Munderwa, Distt. Basti	13.82
65.	The Shree Anand Sugar Mills P.O. Khalilabad, Distt. Basti	14.26
66.	The Ganosh Sugar Mills, P.O. Anandnagar, Distt. Gorakhpur	13.68
67.	The Saraya Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Sardarnagar, Distt. Gorakhpur	13.68
68.	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., P.O. Pipraich, Distt. Gorakhpur	13.53
69.	Punjab Sugar Mills Co. Ltd., P.O. Ghughli, Distt. Gorakhpur	13.09
70.	The Mahabir Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Siswabazar, Distt. Gorakhpur	12.65
71.	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Khadda, P.O. Rajabazar Khadda, Distt. Deoria	13.09
72.	The Lakshmi Dovi Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Chhitauni Distt. Deoria	12.50
73.	Shankar Agro Industries Ltd., P.O. Captainganj, Distt. Deoria	13.97
74.	The Ishwari Khetan Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Lakshmiganj, Distt. Deoria	13.68
75.	Mareshwari Khetan Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Ramkola, Distt. Deoria	13.24
76.	The Gangeshwar Limited, P.O. Ramkola, Distt. Deoria	14.26
77.	The Cawnpore Sugar Works Ltd., Padrauna Factory Branch, P.O. Padrauna, Distt. Deoria	13.82
78.	The Cawnpore Sugar Works Ltd., Kathkuiyan Factory Branch, P.O. Kathkuiyan, Distt. Deoria	14.12
79.	The United Provinces Sugar Co. Ltd., P.O. Seorahi, Distt. Deoria	13.82
80.	Shree Sitaram Sugar Co. Ltd., P.O. Baitalpur, Distt. Deoria	14.12
81.	The Cawnpore Sugar Works Ltd., Gauri Factory Branch, Gauribazar, Distt. Deoria	13.82
82.	The Deoria Sugar Mills Ltd., P.O. Deoria, Distt. Deoria	14.12
83.	The U.P. State Sugar Corporation Ltd., Unit Bhatni, P.O. Bhatni, Distt. Deoria	13.68
84.	The Pratappur Sugar & Industries Ltd., Pratappur P.O., Distt. Deoria	12.94
85.	The Kashi Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Aurai, Distt. Varanasi	13.24
86.	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Rasra, Distt. Balia	13.38
87.	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Sathiaon, Distt. Azamgarh	14.41
88.	The Kisan Sahakari Chini Mills Ltd., P.O. Budaun, Distt. Budaun	13.53
89.	Experimental Sugar Factory, National Sugar Institute, P.O. Kalyanpur, Kanpur	12.50

BIHAR

1.	The North Bihar Sugar Mills Ltd., P.O. Naraipur, Distt. Champaran	13.38
2.	The Harinagar Sugar Mills Ltd., P.O. Harinagar, Distt. Champaran	15.59
3.	The New Swadeshi Sugar Mills Ltd., P.O. Narkatiaganj, Distt. Champaran	14.12
4.	The Champaran Sugar Co. Ltd., Barrah Factory Branch, P.O. Barachakia, Distt. Champaran	12.50
5.	Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Lauriya, Distt. Champaran	12.94
6.	The Motilal Padampat Udyog Ltd. (Sugar Mills Branch), P.O. Majhauria, Distt. Champaran	13.53
7.	The Sugauli Sugar Works Pvt. Ltd., P.O. Sugauli, Distt. Champaran	12.50
8.	Gobind Sugar Mills Ltd., Lessee of Shri Hanuman Sugar & Industries Ltd., Motihari, Distt. Champaran	13.38
9.	The Champaran Sugar Co. Ltd., Chanpatia Factory Branch, P.O. Chanpatia, Distt. Champaran	13.38
10.	The Belsund Sugar Co. Ltd., P.O. Righa, Distt. Sithamarhi	14.71
11.	The Motipur Sugar Factory Pvt. Ltd., Motipur P.O. Distt. Muzaffarpur	12.50
12.	The Sitalpore Sugar Works Ltd., P.O. Garaul, Distt. Vaishali	12.50
13.	The Tirhut Coop. Sugar Factory Ltd., P.O. Ryam Factory, Distt. Darbhanga	12.50
14.	The Lohat Sugar Works of the Durbhanga Sugar Co. Ltd., P.O. Lohat, Distt. Madhubani	12.50
15.	The Sakri Sugar Works of the Durbhanga Sugar Co. Ltd., P.O. Sakri, Distt. Madhubani	12.50
16.	The Samastipur Central Sugar Co. Ltd., Samastipur, Distt. Samastipur	12.50
17.	The New India Sugar Mills Ltd., Hassanpur Road, P.O. Hassanpur Sugar Mills, Distt. Samastipur	13.24
18.	The Sasa Musa Sugar Works Pvt. Ltd., P.O. Sasa Musa, Distt. Gopalganj	12.65
19.	The Vishnu Sugar Mills Ltd., P.O. Vishnu Sugar Mills, Distt. Gopalganj	12.65
20.	Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Mirganj, Distt. Gopalganj	13.68
21.	Bharat Sugar Mills Ltd., Sidhwalia, Distt. Gopalganj	13.09
22.	The Cawnpore Sugar Works Ltd., Marhowrah Factory Branch, Marhowrah, Distt. Saran	12.79
23.	The New Savan Sugar Mills, P.O. Siwan Distt. Siwan	12.94
24.	Shree Krishna Gyanoday Sugar Ltd., P.O. Siwan, Distt. Siwan	12.50
25.	The Purnea Cooperative Sugar Factory Ltd., Banmankhi, Distt. Purnea	12.50
26.	The South Bihar Sugar Mills Ltd., P.O. Bihta, Distt. Patna	12.50
27.	The Mohini Sugar Mills Ltd., P.O. Warisaliganj, Distt. Nainwadah	12.94
28.	The Guraru Chini Mills, P.O. Guraru Mills, Distt. Gaya	12.94

WEST BENGAL

1.	The Ramnugger Cane & Sugar Co. Ltd., P.O. Plassey, Distt. Nadia	12.50
2.	The Ahmedpur Sugar Mills, Ahmedpur P.O. Distt. Birbhum	13.09

ASSAM

1.	The Assam Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Barabamungaon, Distt. Sibsagar	12.50
2.	The Cachar Sugar Mills Ltd., Chargola, P.O. Ratabari, Distt. Cachar	12.65

(1)	(2)	(3)
ORISSA		
1. The Aska Cooperative Sugar Industries Ltd., P.O. Aska, Distt. Ganjam		13.24
2. The Jeypore Sugar Co. Ltd., P.O. Rayagada, Distt. Koraput		13.38
3. The Bargarh Cooperative Sugar Mills Ltd., P.O. Bargarh, Distt. Sambalpur		12.50
RAJASTHAN		
1. The Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sri Ganganagar, Distt. Ganganagar		12.50
2. The Mewar Sugar Mills Ltd., P.O. Bhupalsagar, Distt. Chitorgarh		14.56
3. Shri Keshoraipatan Sahkari Sugar Mills Ltd., P.O. Keshoraipatan, Distt. Bundi		15.15
MADHYA PRADESH		
1. The Gwalior Sugar Co. Ltd., P.O. Dabra, Distt. Gwalior		14.26
2. The Jiwaji Rao Sugar Co. Ltd., P.O. Dalauda, Distt. Mandsaur		13.53
3. The Jaora Sugar Mills Pvt. Ltd., P.O. Jaora, Distt. Ratlam		13.09
4. Seth Gobind Ram Sugar Mills, P.O. Mehidpur Road, Distt. Ujjain		13.09
5. The Bhopal Sugar Industries Ltd., P.O. Sehore, Distt. Sehore		13.53
6. The Morena Mandal Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kailaras, Distt. Morena		13.82
ANDHRA PRADESH		
1. The Sri Rama Sugars and Industries Ltd., P.O. Bobbili, Distt. Srikakulam		13.53
2. The Amadalavalasa Cooperative Agricultural and Industrial Society Ltd., P.O. Amadalavalasa, Distt. Srikakulam		13.97
3. Chodavaram Cooperative Sugars Ltd., P.O. Govada, Distt. Visakhapatnam		12.65
4. The Anakapalle Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Thummapala, Anakapalle, Distt. Visakhapatnam		12.79
5. The Etikoppaka Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., P.O. Etikoppaka, Distt. Visakhapatnam		12.79
6. The Thandava Cooperative Sugars Ltd., P.O. Payakaraopeta, Distt. Visakhapatnam		12.79
7. The Kirlampudi Sugar Mills Ltd., P.O. Pithapuram, Distt. East Godavari		12.50
8. The Deccan Sugar & Abkhari Co. Ltd., P.O. Samalkot, Distt. East Godavari		12.50
9. Sri Sarvaraya Sugars Ltd., P.O. Chelluru, Distt. East Godavari		12.79
10. V.V.S. Sugars, P.O. Chagallu, Distt. West Godavari		14.26
11. The Andhra Sugars Ltd., P.O. Tanuku, Distt. West Godavari		13.53
12. The Palakol Cooperative Agricultural & Industrial Society Ltd., Palakol P.O. Distt. West Godavari		12.65
13. The K.C.P. Ltd., P.O. Vuyyuru, Distt. Krishna		12.79
14. The Challapalli Sugars Ltd., P.O. Challapalli, Distt. Krishna		12.50
15. The Nizamabad Cooperative Sugar Factory Ltd., Nizamabad, Distt. Nizamabad		15.74
16. The Nizam Sugar Factory Ltd., Madhunagar, P.O. Didgi, Tq. Zaheerabad, Distt. Medak		15.29
17. The Chittoor Cooperative Sugars Ltd., P.O. Tsavatapalle, Chittoor, Distt. Chittoor		13.24
18. Sri Venkateswara Cooperative Sugar Factory Ltd., Gazulamandyam P.O. Distt. Chittoor		12.50
19. The Cuddapah Cooperative Sugars Ltd., Dowhathapuram, Cuddapah Taluk, Distt. Cuddapah		13.09
20. M/s. Kovur Cooperative Sugar Factory Ltd., Pothireddypatam (Post) Kovur Taluk, Distt. Nellore		12.50
21. The Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Niryalguda, Distt. Nalgonda		12.65
22. Sri Vijayarama Gajpati Cooperative Sugar Ltd., Bhimasingi, P.O. Korukonda, Distt. Visakhapatnam		12.94
23. Nizam Sugar Factory Ltd., P.O. Shakarnagar, Distt. Nizamabad		15.15
24. West Godavari Cooperative Sugars Ltd., Bhimadole, Distt. West Godavari		13.09
25. The Nizam Sugar Factory Ltd., Hindupur, Distt. Anantapur		12.50
26. Sri Rama Sugars and Refineries Ltd., P.O. Seethanagaram, Distt. Srikakulam		14.56
GUJARAT		
1. Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sardar Bag, Bardoli, Distt. Surat		16.32
2. Shree Madhi Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., P.O. Madhi, Distt. Surat		17.06
3. Shree Chalthan Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., P.O. Chalthan, Distt. Surat		17.06
4. Shri Sayan Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Sayan Tal. Olpaid, Distt. Surat		14.12
5. The Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Gandevi, Via Billimora, Distt. Bulsar		16.18
6. Shri Maroli Vibhag Khand Udyog Sahakari Mandli Ltd., P.O. Maroli Tal. Navasari, Distt. Valsad		14.85
7. Shri Bileshwar Khand Udyog Khedut Sahakari Mandli Ltd., P.O. Kodinar, Distt. Amreli		14.56
8. The Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Ltd., Gavadka, Distt. Amreli		13.53
9. Shri Talala Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Talala, Distt. Junagadh		14.41
10. Shri Una Taluka Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., P.O. Una, Distt. Junagadh		13.97
11. The Charotar Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Palaj, Tq. Petlad, Distt. Kaira		13.82
12. Shri Sardar Vallabhbhai Patel Khand Udyog Cooperative Society Ltd., Jamnavad Road, Dhoraji, Distt. Rajkot		12.94
13. Shiv Valsad Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd., Paruera Pardi Tal. Distt. Valsad		14.71

(1)	(2)	(3)
MAHARASHTRA		
1. The Ravalgaon Sugar Farm Ltd., P.O. Ravalgaon, Distt. Nasik		15.29
2. The Girna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Dabhadi, Tal. Malegaon, Distt. Nasik		16.03
3. The Niphad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Bhausahab Nagar, Tal. Niphad, Distt. Nasik		17.06
4. The Karmaveer Kakasaheb Wagh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kakasaheb Nagar, Post Ranward, Tal. Niphads		16.18
Distt. Nasik.		
5. The Kadwa Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., At & P.O. Materwadi, Tal. Dindori, Distt. Nasik		14.75
6. The Nasik Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Palse, Tal. & Distt. Nasik		16.03
7. The Sanjivani (Takli) Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Shingnapur, P.O. Kopergaon Distt. Ahmednagar		16.18
8. The Kopergaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gautamnagar, P.O. Kolpewadi, Tal. Kopergaon, Distt. Ahmednagar		16.32
9. The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O. Lakshmiwadi, Via. Kopergaon, Distt. Ahmednagar		16.18
10. The Godavari Sugar Mills Ltd., P.O. Sakarwadi, Via. Kanhegaon, Distt. Ahmednagar		15.74
11. Shree Changdeo Sugar Mills Ltd., P.O. Changdeo Nagar, Distt. Ahmednagar		15.74
12. Shree Ganesh Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ganeshnagar, P.O. Ranjangaon Khurd, Tal. Kopergaon, Distt. Ahmednagar.		16.03
13. The Ashok Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ashoknagar, Post Karegaon Factory, Tal. Shirampur, Distt. Ahmednagar		15.74
14. The Belapur Sugar and Allied Industries Ltd., P.O. Harigaon, Distt. Ahmednagar		16.47
15. The Maharashtra Sugar Mills Ltd., P.O. Tilaknagar, Distt. Ahmednagar		16.32
16. Pravara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pravara-nagar, Distt. Ahmednagar		15.59
17. The Rahuri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Shrishivajinagar, Post Rahuri Factory, Dist. Ahmednagar		16.18
18. Sangamner Bhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Amrutnagar, Post Tal. Sangamner, Dist. Ahmednagar		16.32
19. Shri Dayaneshwari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhende, Tal. Newsa, Distt. Ahmednagar		16.62
20. Shrigonda Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., At Post Shrigonds Factory, Dist. Ahmednagar		15.44
21. Shri Jagadamba Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rashin, Tal. Karjat, Dist. Ahmednagar		16.03
22. The Gangapur Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Raghunathnagar, Distt. Aurangabad		15.00
23. The Vinyak Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Parsoda, P.O. Decondongari, Tal. Vaijapur, Distt. Aurangabad		15.59
24. The Mula Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Sonai, Taluka Newasa, Dist. Ahmednagar		15.59
25. The Kannad Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kannad, Distt. Aurangabad		15.88
26. Shree Someshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Someshwarnagar, Tal. Baramati, Dist. Poona		17.35
27. The Sidheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sillod, Dist. Aurangabad		16.76
28. The Malegaon Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Malegaon BK (Shivnagar) Tal. Baramati, Distt. Poona		16.03
29. Shri Chhatrapati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhavaninagar, Tal. Indapur, Dist. Poona		16.18
30. The Walchandnagar Industries Ltd., P.O. Walchandnagar, Distt. Poona		15.00
31. The Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Aklug, Yeshwantnagar, Tal. Malshiras, Dist. Sholapur		15.59
32. The Yeshwant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Chit-amaninagar, P.O. Theur, Tal. Haveli, Distt. Poona		15.59
33. The Saswad Mali Sugar Factory Ltd., P.O. Malinagar, Dist. Sholapur		15.29
34. The Brima Sugar Limited, P.O. Shreepur, Tal. Malshiras, Dist. Sholapur		15.44
35. Shree Shankar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sadashivnagar, Tal. Malshiras, Dist. Sholapur		16.32
36. Shree Siddheshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kumathe, Post Tikekarwadi, Tal. N. Sholapur, Dist. Sholapur		16.62
37. The Terna Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dhoki, Tq., & Distt. Osmanabad		16.03
38. The Satara Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhuinj, Tal. Wai, Dist. Satara		15.88
39. Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Killari Distt. Osmanabad		16.47
40. The Phaltan Sugar Works Ltd., P.O. Sakharwadi, Distt. Satara		16.32
41. The Shiram Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Phaltan, Distt. Satara		16.03
42. The Balasaheb Desai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Daulatnagar (Marali), Tal. Patan, Distt. Satara		18.09
43. The Krishna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Rethare Budruk, P.O. Shivnagar, Dist. Satara		18.24
44. The Sabyadri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Tal. Karad, Distt. Satara		17.94
45. The Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Sangli, Dist. Sangli.		17.06
46. The Walwa Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Islampur, Tal. Walwa, Dist. Sangli		17.65
47. The Vishwas Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Yeshwantnagar, Tal. Shirala, Dist. Sangli		18.09
48. Shree Warana Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Warananagar, Tal. Panhila, Dist. Kolhapur		18.68
49. Shree Panchaganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Ichalkaranji, Dist. Kolhapur		17.50
50. The Bhogawati Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Shahunagar, Dist. Kolhapur		17.79
51. The Kolhapur Sugar Mills Ltd., Kasaba Bavada, Kolhapur, Dist. Kolhapur.		17.50
52. The Kumbhi Keri Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., P.O. Kuditre, Tal. Karveer, Dist. Kolhapur		18.24
53. Shree Dudhganga Vedganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bidri (Mouninagar) Tal. Kagal, Dist. Kolhapur		17.35
54. The Daulat Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., At Post Harkarani, Tal. Chandgad, Dist. Kolhapur		17.50
55. The Gadhinglaj Taluka Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Gadhinglaj, Dist. Kolhapur		17.21
56. The Kalambar Vibhag Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kalambar, At Post Gandhinagar, Tq. Kandhar, Dist. Nanded		13.97
57. Shri Panzarakan Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhadne, Tal. Sakari, Dist. Dhulia		15.44

(1)	(2)	(3)
58.	Shree Satpuda Tapi Parisar Sahkari Sakhar Karkhana Ltd., PO Purushotamnagar, Tal. Shahada, Distt. Dhulla.	15.29
59.	The Jijamata Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dusrabid, Tq. Mchkar, Dist. Buldana.	15.44
60.	The Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pusad PO, Dist. Yeotmal.	15.74
61.	The Ambajogai Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Ambajogai, Dist. Bhir.	16.76
62.	The Jai Bhavani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Georai, Dist. Bhir.	15.59
63.	The Kada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Kada, Tal. Ashti, Dist. Bhir.	15.74
64.	The Vasant Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., PO Kasoda, Tal. Erandol, Dist. Jalgaon.	14.41
65.	The Madhukar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Nhavi Marg, Faizpur, Dist. Jalgaon.	14.12
66.	The Belganga Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., (Bhoras) At & Post Challisgaon, Dist. Jalgaon.	14.41
67.	The Marathwada Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Post Dongarkada, Tq. Kalamnuri, Dist. Parhani.	14.56
68.	Shree Vridhoshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Adinathnagar, Post Vridheshwar Sakhar Karkhana, Tal. Puthardi, Dist. Ahmednagar.	14.41
69.	Shri Dutta Shetkari Sahakare Sakhar Karkhana Ltd., Shirol Dist. Kolhapur.	17.94

TAMIL NADU

1.	The Ambur Cooperative Sugar Mills Ltd., Vadapudupet, PO Ambur, Dist. North Arcot.	13.97
2.	The Tirupattur Cooperative Sugar Mills Ltd., Kethandapatti Village and Post Vanjyambadi Taluk, Dist. North Arcot.	15.00
3.	The Vellore Cooperative Sugar Mills Ltd., PO Vellore Sugar Mills (Near Tiruvalam R.S.) Dist. North Arcot.	12.94
4.	The Mirlurantakam Cooperative Sugar Mills Ltd., PO Padalam, Dist. Chingleput.	13.53
5.	The E.I.D. Parry Ltd., PO Nellkiuppam, Dist. S. Arcot.	12.50
6.	The South India Steel and Sugar Ltd., PO Mundiampakkam, Tal. Villupuram, Dist. S. Arcot.	12.50
7.	The Aruna Sugars Ltd., PO Pennadam, Dist. S. Arcot.	13.82
8.	The Kallakurichi Cooperative Sugar Mills Ltd., PO Moongilthuraipattu, Dist. S. Arcot.	12.50
9.	Thiru Arooran Sugars Ltd., Vadapathimangalam, Dist. Thanjavur.	13.53
10.	The Tamil Nadu Sugar Corporation Ltd., (Thanjavur Sugar Mills) Kurungulam Via. Vallam, Dist. Thanjavur.	13.53
11.	The Kothari Sugars & Chemicals Ltd., PO Lalgudi, Dist. Trichy.	13.24
12.	The Cauvery Sugars & Chemicals Ltd., Cauvery Factory PO Pettaivaytalai, Dist. Trichy.	12.79
13.	The Deccan Sugar & Abkari Co. Ltd., Pugalur Sugar Factory, Dist. Trichy.	12.94
14.	The Salem Cooperative Sugar Mills Ltd., Mohanur, Via. Karur, Dist. Salem.	13.09
15.	The Perambalur Sugar Mills Ltd., (Pandit Jawaharlal Nehru Sugar Mills), Eraiyur Village, Perambalur Taluk, Distt. Trichy.	13.38
16.	The Sakthi Sugars Ltd., PO Sakthinagar, Erode RMS, Dist. Coimbatore.	13.24
17.	The Amravathi Cooperative Sugar Mills Ltd., Krishnapur Post, Distt. Coimbatore	12.79
18.	The Madura Sugars Ltd., PO Pandiarajapuram, Dist. Madurai.	12.50
19.	The National Cooperative Sugar Mills Ltd., PO Metupatti, Via Alanganallur, Dist. Madurai.	13.09
20.	The Dharampuri District Cooperative Sugar Mills Ltd., PO Palacode, Dist. Dharampurj.	15.00

GOA

1.	The Sanjivani Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Dayanandnagar, Post Usgaon, Sanguem (Goa).	13.38
----	---	-------

KARNATAKA

1.	The Ugar Suagar Works Ltd., PO Ugarkhurd, Dist. Belgaum.	16.76
2.	The Hiranyakeshi Sahakari Sakhar Karkhana Niyamit, PO Sankeshwar, Dist. Belgaum.	17.50
3.	Shri Malaprabha Cooperative Sugar Factory Ltd., Mugut Khan Hubli, Dist. Belgaum.	16.47
4.	Shree Doodhganga Krishna Sahakari Sakkare Karkhana Niyamit PO Chikodi, Dist. Belgaum.	17.06
5.	Raibag Sahakari Sakkare Karkhana Niyamit, Raibag, Dist. Belgaum.	16.03
6.	The Gangavati Sugars Ltd., Marli, Sriramnagar Post, Gangavati Taluk, Dist. Raichur.	12.50
7.	The India Sugars & Refineries Ltd., PO Hospet, Dist. Bellary.	15.00
8.	The Salar Jung Sugar Mills (A Division of India Sugars & Refineries Ltd.) PO Munirabad, Dist. Raichur.	15.15
9.	The Kampli Cooperative Sugar Factory Ltd., PO Kampli Sugar Factory, Dist. Bellary.	14.26
10.	The Kothari Sugars & Chemicals Ltd., PO Sirugappa, Dist. Bellary.	14.71
11.	Shree Mukesh Textile Mills (P) Ltd., (Thungbhadra Sugar Works) PO Shimoga, Dist. Shimoga.	15.00
12.	The Pandavapura Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Pandavapura, Dist. Mandya.	15.29

(1)	(2)	(3)
13.	The Mysore Sugar Co. Ltd., Mandya PO, Dist. Mandya.	14.41
14.	Sri Chamundeswari Sugars Ltd., Kalamuddana Doddi, Tal. Maddur Dist. Mandya.	14.41
15.	The Gauribidanur Sahakara Sakkare Karkhana Ltd., PO Gauribidanur, Dist. Kolar.	14.71
16.	The Bidar Sahakara Sakkare Karkhana Ltd., Hallikhed S.F. Distt. Bidar.	15.74
17.	The Davangere Sugar Co. Ltd., Kukkavada, Taluk Davangere, Dist. Chitradurga.	14.12
18.	The Vanivilasa Cooperative Sugar Factory Ltd., PO Hiriyur, Dist. Chitradurga.	15.00
19.	Sri Mahadeswara Sahakara Sakkare Karkhana Ltd., PO Kollegal, Dist. Mysore.	14.56
20.	Somaiya Sugar Works, Sameerwadi, Via. Mahalingpur, Tal. Muddhol, Dist. Bijapur.	16.03
21.	Dhadra Sahakari Sakhare Karkhana Niyamit Doddabathj, Davangere Taluk, Dist. Chitradurga.	12.94

KERALA

1.	The Travancore Sugars & Chemicals Ltd., Pumba River Factory, PO Tiruvalla, Dist. Alleppey.	12.50
2.	The Mannam Sugar Mills Cooperative Ltd., No. 4324, PO Pandalam, Dist. Alleppey.	12.50
3.	The Cooperative Sugars Ltd., Chittur, PO Menonpara, Dist. Palghat.	13.68

NAGALAND

1.	The Nagaland Sugar Mills Ltd., PO Dimapur (Nagaland).	12.50
----	---	-------

PONDICHERRY

1.	The New Horizon Sugar Mills Pvt. Ltd., Sacur (Ariour) Kandamangalam Post, Pondicherry.	12.50
----	--	-------

[No. 3-5/79-SPY(DII)]
C.N. RAGHAVAN, Joint Secy, (Sugar)